



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2001]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 17, 2011/आश्विन 25, 1933

No. 2001]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 2011/ASVINA 25, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2011

आय-कर

का.आ. 2394(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 1) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सातवां संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये 1 नवम्बर 2011 को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में,—

(अ) नियम 114 में,—

(क) उपनियम (1) में, "फार्म 49क" शब्द, अंक और अक्षर के पश्चात्, "यथास्थिति, या प्ररूप 49कक" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपनियम (3) में,—

(i) "लेखा वर्ष" शब्द जहां-जहां वे आते हैं, के स्थान पर, "वित्त वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) मद (iii) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी; अर्थात् :—

"(iv) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो कोई राशि या आय या रकम अभिप्राप्त करने का हकदार है, जिस पर अध्याय 17ख के अधीन किसी वित्त वर्ष में, ऐसे वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले कर की कटौती की जानी है।";

(ग) उपनियम (4) में, "नीचे दी गई सारणी में स्तंभ 2 में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में उपनियम (1) में उल्लिखित आवेदन के साथ आवेदक की पहचान तथा पते के सबूत के रूप में स्तंभ 3 में वर्णित दस्तावेज भी लगाए जाएंगे" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "नीचे दी गई सारणी में स्तंभ 2 में वर्णित व्यक्तियों के संबंध में उपनियम (1) में उल्लिखित आवेदन के साथ आवेदक की पहचान तथा पते के सबूत के रूप में स्तंभ 3 में वर्णित प्ररूपों में फाइल की जाएगी और इसके साथ स्तंभ 4 में वर्णित दस्तावेज संलग्न होंगे" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(घ) सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	आवेदक	प्ररूप	पहचान और पते के सबूत के रूप में दस्तावेज .
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है	49क	<p>(i) पहचान का सबूत -</p> <p>(क) विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र ; या</p> <p>(ख) दसवीं का प्रमाणपत्र; या</p> <p>(ग) मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था की डिग्री; या</p> <p>(घ) निक्षेपागार खाता; या</p> <p>(ङ) क्रेडिट कार्ड; या</p> <p>(च) बैंक खाता ; या</p> <p>(छ) पानी का बिल; या</p> <p>(ज) राशन कार्ड; या</p> <p>(झ) संपत्ति कर निर्धारण आदेश; या</p> <p>(ञ) पासपोर्ट; या</p> <p>(ट) मतदाता पहचानपत्र; या</p> <p>(ठ) चालन अनुज्ञप्ति; या</p> <p>(ड) यथास्थिति, किसी संसद् सदस्य या विधान सभा के सदस्य या नगरनिगम पार्षद या राजपत्र अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान प्रमाण पत्र,</p> <p>की प्रति ।</p> <p>किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो अप्राप्तवय है, पूर्वोक्त में से ऐसे अप्राप्तवय के माता-पिता या अभिभावक का कोई दस्तावेज, पहचान का सबूत माना जाएगा ।</p> <p>(ii) पते का सबूत-</p> <p>(क) बिजली का बिल ; या</p> <p>(ख) टेलीफोन का बिल ; या</p> <p>(ग) निक्षेपागार खाता; या</p> <p>(घ) क्रेडिट कार्ड; या</p> <p>(ङ) बैंक खाता; या</p> <p>(च) राशन कार्ड; या</p> <p>(छ) नियोक्ता प्रमाणपत्र; या</p> <p>(ज) पासपोर्ट; या</p> <p>(झ) मतदाता पहचानपत्र; या</p> <p>(ञ) संपत्ति कर निर्धारण आदेश; या</p>

			<p>(ट) चालन अनुज्ञप्ति; या</p> <p>(ठ) भाटक की रसीद; या</p> <p>(ड) यथास्थिति, किसी संसद् सदस्य या विधान सभा के सदस्य या नगरनिगम पार्षद या राजपत्र अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पहचान प्रमाण पत्र,</p> <p>की प्रति ।</p> <p>टिप्पण 1 : किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो अप्राप्तवय है, पूर्वोक्त में से ऐसे अप्राप्तवय के माता-पिता या अभिभावक का कोई दस्तावेज, पहचान का सबूत माना जाएगा ।</p> <p>टिप्पण 2 : किसी भारतीय नागरिक के भारत से बाहर रहने की दशा में निवास के देश में बैंक खाता विवरण की प्रति या अनिवासी बाह्य (एनआरई) बैंक खाता विवरणियों की प्रति ।</p>
2.	हिन्दू अविभक्त कुटुंब	49क	<p>(क) आवेदन की तारीख को सभी सहदायिकों के नाम, पिता का नाम और पते को दर्शाते हुए हिन्दू अविभक्त कुटुंब के कर्ता का शपथपत्र ; और</p> <p>(ख) हिन्दू अविभक्त कुटुंब के कर्ता के संबंध में क्रम सं. 1 में उल्लिखित व्यक्ति की दशा में पहचान और पते के सबूत के रूप में लागू किसी दस्तावेज की प्रति ।</p>
3.	भारत में रजिस्ट्रीकृत कंपनी	49क	कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति ।
4.	फर्म (जिसमें भारत में बनाई गई या रजिस्ट्रीकृत सीमित भागीदारी भी है)	49क	<p>(क) फर्मों/सीमित दायित्व भागीदारियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की प्रति ; या</p> <p>(ख) भागीदारी विलेख की प्रति ।</p>
5.	भारत में बनाया गया या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का संगम (न्यास)	49क	<p>(क) न्यास विलेख की प्रति ; या</p> <p>(ख) पूर्ण आयुक्त द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण संख्यांक प्रमाणपत्र की प्रति ।</p>
6.	भारत में बनाया गया या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का संगम (न्यासों से भिन्न या व्यष्टियों का निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम विधिक व्यक्ति)	49क	<p>(क) करार की प्रति ; या</p> <p>(ख) पूर्ण आयुक्त या सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रार या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण संख्यांक प्रमाणपत्र की प्रति ; या</p> <p>(ग) केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग से जारी कोई अन्य दस्तावेज, जिसमें ऐसे व्यक्ति की पहचान या पता साबित होता हो ।</p>
7.	व्यष्टि जो भारत के नागरिक नहीं हैं	49कक	<p>(i) पहचान का सबूत :-</p> <p>(क) पासपोर्ट की प्रति ; या</p>

			<p>(ख) भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल का व्यक्ति कार्ड की प्रति; या</p> <p>(ग) भारत सरकार द्वारा जारी विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड की प्रति; या</p> <p>(घ) "अपोसिल "(उन देशों के संबंध में जो एक अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या जहां आवेदक अवस्थित है, देश में, भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यक्तः सत्यापित अन्य राष्ट्रिक या नागरिकता पहचान संख्यांक या कर दाता पहचान संख्यांक की प्रति ।</p> <p>(ii) पते का सबूत :-</p> <p>(क) पासपोर्ट की प्रति ; या</p> <p>(ख) भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय मूल का व्यक्ति कार्ड की प्रति; या</p> <p>(ग) भारत सरकार द्वारा जारी विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड की प्रति; या</p> <p>(घ) "अपोसिल "(उन देशों के संबंध में जो एक अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या जहां आवेदक अवस्थित है, देश में, भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यक्तः सत्यापित अन्य राष्ट्रिक या नागरिकता पहचान संख्यांक या कर दाता पहचान संख्यांक की प्रति ।</p> <p>(ङ) निवास के देश में बैंक खाता विवरणी की प्रति; या</p> <p>(च) भारत में अनिवासी बाह्य बैंक खाता विवरणी की प्रति; या</p> <p>(छ) भारत में निवास के प्रमाणपत्र या राज्य पुलिस प्राधिकारी द्वारा जारी निवासी परमिट की प्रति; या</p> <p>(ज) विदेशी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी भारतीय पता उपदर्शित करते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति; या</p> <p>(झ) प्रदान किए गए वीजा की प्रति और भारतीय कंपनी से नियुक्ति पत्र या संविदा की प्रति तथा नियोक्ता द्वारा जारी भारतीय पते (मूल प्रति) का प्रमाणपत्र ।</p>
8.	भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी	49कक	<p>(क) उस देश में जहां आवेदक अवस्थित है जारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की "अपोसिल "(उन देशों के संबंध में जो अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यक्तः सत्यापित प्रति; या</p> <p>(ख) भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति ।</p>
9.	भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत कंपनी	49कक	<p>(क) (क) उस देश में जहां आवेदक अवस्थित है जारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की "अपोसिल "(उन देशों के संबंध में जो अपोसिल</p>

			अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यक्तः सत्यापित प्रति; या (ख) भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति ।
10.	भारत से बाहर बनाई गई या रजिस्ट्रीकृत फर्म	49कक	(क) (क) उस देश में जहां आवेदक अवस्थित है जारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की "अपोसिल "(उन देशों के संबंध में जो अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यक्तः सत्यापित प्रति; या (ख) भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति ।
11.	भारत से बाहर बनाया गया व्यक्तियों का संगम (न्यास)	49कक	(क) (क) उस देश में जहां आवेदक अवस्थित है जारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की "अपोसिल "(उन देशों के संबंध में जो अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यक्तः सत्यापित प्रति; या (ख) भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति ।
12.	भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का संगम (न्यासों से भिन्न) या व्यष्टियों का निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम विधिक व्यक्ति या कोई अन्य निकाय (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो)	49कक	(क) उस देश में जहां आवेदक अवस्थित है जारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की "अपोसिल "(उन देशों के संबंध में जो अपोसिल अभिसमय, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता हैं) या उस देश में भारतीय दूतावास या उच्चायुक्त या कंसुलेट द्वारा सम्यक्तः सत्यापित प्रति; या (ख) भारत में जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या भारतीय प्राधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रदत्त अनुमोदन की प्रति ।

(ख) परिशिष्ट 2 में, प्ररूप 49क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

केवल 'व्यक्तियों' को नवीनतम फोटो दिपकाना है (3.5 से.मी. X 2.5 से.मी)	प्ररूप सं० 49क स्थायी खाता संख्या आर्बटन के लिए आवेदन आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 139अ के अधीन त्रुटि (त्रुटियों) से बचने के लिए प्ररूप भरने से पूर्व संलग्न अनुदेश और उदाहरण देखें						केवल 'व्यक्तियों' को नवीनतम फोटो दिपकाना है (3.5 से.मी. X 2.5 से.मी)
फोटो पर हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे का निशान							हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे का निशान
निर्धारण अधिकारी (एओ कोड)							
क्षेत्र कोड		एओ टाईप		रैंज कोड		एओ सं०	

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें स्थायी लेखा संख्या आवंटित की जाए।

मैं/हम आवश्यक विशिष्टियां नीचे दे रहा हूँ/रहे हैं :

1 पूरा नाम (पहचान/पते के सबूत वाले दस्तावेजों में लिखे अनुसार पूरा नाम वर्णित किया जाना है : संक्षिप्त नाम अनुज्ञात नहीं है)
कृपया चुने यथा लागू श्री श्रीमती कुमारी मैसर्स

[illegible][illegible][illegible]

2 क्या आप कभी किसी अन्य नाम से जाने गए हैं ? हां नहीं (जो लागू हों निशान लगाएँ)

यदि हां, कृपया वह नाम दें

कृपया चुने यथा लागू श्री श्रीमती कुमारी मैसर्स

[illegible][illegible][illegible]

3 लिंग (केवल व्यक्ति आवेदकों के लिए) पुरुष स्त्री (जो लागू हों निशान लगाएं)

4 जन्म/व्याप्ति निकाय या व्यक्तियों के संगम के निगमन/करार/भागीदारी या न्यास दिलेख/गठन की तारीख

दिन मास वर्ष

--	--	--	--	--	--	--	--

5. पिता का नाम (केवल व्यक्ति आवेदक के लिए : विवाहित स्त्रियों को भी केवल पिता का नाम देना चाहिए)

[illegible][illegible]

मुख्य नाम

6 पता

निवास का पता

फ्लैट/कक्ष/द्वार/ब्लॉक
सं०परिसर का
भवन/ग्राम/नाम

मार्ग/सड़क/गली/डाकघर

क्षेत्र/स्थान/तालुक/उप-
खंड

नगर/शहर/जिला

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

पिनकोड/जिप कोड

देश का नाम

कार्यालय का पता

कार्यालय का नाम

फ्लैट/
कक्ष/द्वार/ब्लॉक सं०परिसर भवन/ग्राम
का नाम

मार्ग/सड़क/गली/डाकघर

क्षेत्र/स्थान/तालुक/उप-
प्रभाग

नगर/शहर/जिला

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

पिनकोड/जिप कोड

देश का नाम

7 संसूचना के लिए पता

निवास

कार्यालय

(जो लागू हों निशान लगाएँ)

8 दूरभाष संख्या और ई मेल आईडी का ब्यौरा

मध्य नाम

3 लिंग (केवल व्यक्ति आवेदकों के लिए)

पुरुष

स्त्री

(जो लागू हो निशान लगाएं)

4 जन्म/व्यक्ति निकाय या व्यक्तियों के संगम के निगमन/करार/भागीदारी या न्यास विलेख/गठन की तारीख

दिन मास वर्ष

5. पिता का नाम (केवल व्यक्ति आवेदक : विवाहित स्त्रियों को भी केवल पिता का नाम देना चाहिए)

अंतिम नाम/उपनाम

प्रथम नाम

मध्य नाम

6 पता

निवास का पता

प्लेट/कक्ष/द्वार/ब्लॉक सं०

परिसर भवन/ग्राम का नाम

मार्ग/सड़क/गली/डाकघर

क्षेत्र/स्थान/तालुक/उप-प्रभाग

नगर/शहर/जिला

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

पिनकोड/जिप कोड

देश का नाम

7 संसूचना के लिए पता

निवास

कार्यालय

(जो लागू हो निशान लगाएं)

8 दूरभाष संख्या और ई मेल आईडी का ब्यौरा

देश कोड

एसटीडी कोड

दूरभाष संख्या/मोबाईल संख्या

9 आवेदक की प्रास्थिति

कृपया प्रास्थिति चुने

जैसा लागू हो

सरकारी

व्यक्ति

हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब कंपनी

भागीदारी फर्म

व्यक्तियों का संगम

न्यास

व्यक्तियों का निकाय

स्थानीय प्राधिकारी

कृत्रिम विधिक व्यक्ति

सीमित दायित्व भागीदारी

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2011

INCOME-TAX

S.O. 2394(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (7th Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the 1st day of November, 2011.

2. In the Income-tax Rules, 1962,-

(A) in rule 114, -

(a) in sub-rule (1), after the words, figures and letter "Form 49A", the words, figures and letters, " or 49AA , as the case may be" shall be inserted;

(b) in sub-rule (3),-

(i) for the words "accounting year" wherever they occur, the words "financial year" shall be substituted;

(ii) after item (iii), the following item shall be inserted, namely:-

" (iv) in the case of a person who is entitled to receive any sum or income or amount , on which tax is deductible under Chapter XVIIIB in any financial year, before the end of such financial year.";

(c) in sub-rule (4), for the words "Table below shall be accompanied by documents mentioned in Column 3" the words " Table below shall be filed in Forms mentioned in Column 3 and shall be accompanied by the documents mentioned in Column 4" shall be inserted ;

(d) For the Table, the following Table shall be substituted, namely : -

TABLE

Sl.No. (1)	Applicant (2)	Form (3)	<i>Documents as proof of identity and address</i> (4)
1.	Individual who is a citizen of India	49A	(i) Proof of identity— Copy of,— (a) school leaving certificate; or (b) matriculation certificate; or (c) degree of a recognised educational institution; or (d) depository account; or (e) credit card; or (f) bank account; or (g) water bill; or (h) ration card; or (i) property tax assessment order; or (j) passport; or (k) voter identity card ; or (l) driving licence; or (m) certificate of identity signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or Municipal Councillor or a Gazetted

Officer, as the case may be.

In case of a person being a minor, any of the above documents of any of the parents or guardian of such minor shall be deemed to be the proof of identity.

(ii) Proof of address—

Copy of,-

- (a) electricity bill; or
- (b) telephone bill; or
- (c) depository account; or
- (d) credit card; or
- (e) bank account; or
- (f) ration card; or
- (g) employer certificate; or
- (h) passport; or
- (i) voter identity card; or
- (j) property tax assessment order; or
- (k) driving licence; or
- (l) rent receipt; or
- (m) certificate of address signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or Municipal Councillor or a Gazetted Officer, as the case may be.

Note 1: In case of a minor, any of the above documents of any of the parents or guardian of such minor shall be deemed to be the proof of address.

Note 2: In case of an Indian citizen residing outside India, copy of Bank Account Statement in country of

			residence or copy of Non-resident External (NRE) bank account statements.
2	Hindu undivided family	49A	<p>(a) an affidavit by the karta of the Hindu Undivided Family stating the name, father's name and address of all the coparceners on the date of application;</p> <p>and</p> <p>(b) copy of any document applicable in the case of an individual specified in serial number 1, in respect of karta of the Hindu undivided family, as proof of identity and address.</p>
3	Company registered in India	49A	copy of Certificate of Registration issued by the Registrar of Companies.
4	Firm (including Limited Liability Partnership formed or registered in India	49A	<p>(a) copy of Certificate of Registration issued by the Registrar of Firms/Limited Liability Partnerships; or</p> <p>(b) copy of Partnership Deed.</p>
5	Association of persons(Trusts) formed or registered in India	49A	<p>(a) copy of trust deed; or</p> <p>(b) copy of Certificate of Registration Number issued by Charity Commissioner.</p>
6	Association of persons (other than Trusts) or body of individuals or local authority or artificial juridical person formed or registered in India	49A	<p>(a) copy of Agreement; or</p> <p>(b) copy of Certificate of Registration Number issued by Charity Commissioner or Registrar of Co-operative Society or any other Competent Authority; or</p> <p>(c) any other document originating from any Central Government or State</p>

			Government Department establishing Identity and address of such person.
7	Individuals not being a citizen of India	49AA	<p>(i) Proof of identity :-</p> <p>(a) copy of Passport; or</p> <p>(b) copy of person of Indian Origin card issued by the Government of India; or</p> <p>(c) copy of Overseas Citizenship of India Card issued by Government of India; or</p> <p>(d) copy of other national or citizenship Identification Number or Taxpayer Identification Number duly attested by "Apostille" (in respect of countries which are signatories to the Hague Apostille Convention of 1961) or by Indian embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located.</p> <p>(ii) Proof of address :-</p> <p>(a) copy of Passport; or</p> <p>(b) copy of person of Indian Origin card issued by the Government of India; or</p> <p>(c) copy of Overseas Citizenship of India Card issued by Government of India; or</p> <p>(d) copy of other national or citizenship Identification Number or Taxpayer Identification Number duly attested by "Apostille" (in respect of countries which are signatories to the Hague Apostille Convention of 1961) or by Indian embassy or High</p>

			<p>Commission or Consulate in the country where the applicant is located; or</p> <p>(e) copy of bank account statement in country of residence; or</p> <p>(f) copy of Non-resident External bank account statement in India; or</p> <p>(g) copy of certificate of residence in India or Residential permit issued by the State Police Authority; or</p> <p>(h) copy of the registration certificate issued by the Foreigner's Registration Office showing Indian address; or</p> <p>(i) copy of Visa granted and copy of appointment letter or contract from Indian Company and Certificate (in Original) of Indian Address issued by the employer.</p>
8	LLP registered outside India	49AA	<p>(a) copy of Certificate of Registration issued in the country where the applicant is located, duly attested by 'Apostille' (in respect of countries which are signatories to the Hague Apostille Convention of 1961) or by Indian embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located; or</p> <p>(b) copy of registration certificate issued in India or of approval granted to set up office in India by Indian Authorities.</p>

9	Company registered outside India	49AA	<p>(a) copy of Certificate of Registration issued in the country where the applicant is located, duly attested by 'Apostille' (in respect of countries which are signatories to the Hague Apostille Convention of 1961) or by Indian embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located; or</p> <p>(b) copy of registration certificate issued in India or of approval granted to set up office in India by Indian Authorities.</p>
10	Firm formed or registered outside India	49AA	<p>(a) copy of Certificate of Registration issued in the country where the applicant is located, duly attested by 'Apostille' (in respect of countries which are signatories to the Hague Apostille Convention of 1961) or by Indian embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located; or</p> <p>(b) copy of registration certificate issued in India or of approval granted to set up office in India by Indian Authorities.</p>

11	Association of persons(Trusts) formed outside India	49AA	<p>(a) copy of Certificate of Registration issued in the country where the applicant is located, duly attested by 'Apostille' (in respect of countries which are signatories to the Hague Apostille Convention of 1961) or by Indian embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located; or</p> <p>(b) copy of registration certificate issued in India or of approval granted to set up office in India by Indian Authorities.</p>
12	Association of persons (other than Trusts) or body of individuals or local authority or artificial juridical person formed or any other entity (by whatever name called) registered outside India	49AA	<p>(a) copy of Certificate of Registration issued in the country where the applicant is located, duly attested by 'Apostille' (in respect of countries which are signatories to the Hague Apostille Convention of 1961) or by Indian embassy or High Commission or Consulate in the country where the applicant is located; or</p> <p>(b) copy of registration certificate issued in India or of approval granted to set up office in India by Indian Authorities.</p>

(B) in Appendix-II, for Form 49A, the following Forms shall be substituted, namely: -

Form No. 49A

Application for Allotment of Permanent Account Number

Under section 139A of the Income Tax act, 1961

To avoid mistake (s), please follow the accompanying instructions and examples before filling up the form

Only 'Individuals'
to affix recent
photograph
(3.5 cm x 2.5 cm)Only 'Individuals'
to affix recent
photograph
(3.5 cm x 2.5 cm)Sign/Thumb Impression across
this photo

Signature-Left Thumb Impression

Assessing officer (AO code)

Area code	AO type	Range code	AO No.

Sir,

I/We hereby request that a permanent account number be allotted to me/us.

I/We give below necessary particulars:

1 Full Name (Full expanded name to be mentioned as appearing in proof of identity/address documents: Initials are not permitted)

Please select title, ☒ as applicable ☐ Shri ☐ Smt. ☐ Kumari ☐ M/s

Last Name / Surname

First Name

Middle Name

2 Have you ever been known by any other name?

☐ Yes ☐ No

(please tick) as applicable

If yes, please give that other name

Please select title, ☒ as applicable ☐ Shri ☐ Smt. ☐ Kumari ☐ M/s

Last Name / Surname

First Name

Middle Name

3 Sex (for individual applicants only)

☐ Male ☐ Female

(Please tick as applicable)

4 Date of Birth/Incorporation/Agreement/Partnership or Trust Deed/ Formation of Body of Individuals or association of Persons

Day Month Year

5 Father's Name (Only 'Individual' applicants: Even married women should give father's name only)

Last Name / Surname

First Name

Middle Name

6 Address

Residence Address

Flat/Room/ Door / Block No.

Name of Premises/ Building/ Village

Road/Street/ Lane/Post Office

Area / Locality / Taluka/ Sub- Division

Town / City / District

State / Union Territory

Pincode / Zip code

Country Name

Office Address

Name of office

Flat/Room/ Door / Block No.

Name of Premises/ Building/ Village

Road/Street/ Lane/Post Office

Area / Locality / Taluka/ Sub- Division

Town / City / District

State / Union Territory

Pincode / Zip code

Country Name

7 Address for Communication

☐ Residence☐ Office

(Please tick as applicable)

8 Telephone Number & Email ID details

Country code	STD Code	Telephone Number / Mobile number
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Email ID

9 Status of applicantPlease select status, ☒ as applicable

<input type="checkbox"/> Individual	<input type="checkbox"/> Hindu undivided family	<input type="checkbox"/> Company	<input type="checkbox"/> Partnership Firm	<input type="checkbox"/> Government
<input type="checkbox"/> Trusts	<input type="checkbox"/> Body of individuals	<input type="checkbox"/> Local Authority	<input type="checkbox"/> Artificial Juridical Persons	<input type="checkbox"/> Association of Persons
				<input type="checkbox"/> Limited Liability Partnership

10 Registration Number (for company, firms, etc.)**11 Whether citizen of India?**☐ Yes☐ No

(Please tick as applicable)

12 Source of income

<input type="checkbox"/> Salary	Business/Profession code <input type="text"/> Refer table at point no. 12
<input type="checkbox"/> Income from Business / Profession	
<input type="checkbox"/> Income from House property	

Please select status, ☒ as applicable

<input type="checkbox"/> Capital Gains
<input type="checkbox"/> Income from Other sources
<input type="checkbox"/> No income

13 Representative Assessee (RA)

Full name, address of the Representative Assessee, who is assessable under the Income Tax Act in respect of the person, whose particulars have been given in the column 1-12.

Full Name (Full expanded name; initials are not permitted)

Please select title, ☒ as applicable☐ Shri☐ Smt.☐ Kumari☐ M/s

Last Name / Surname

First Name

Middle Name

Flat/Room/Door/Block No.

Name of Premises/ Building/ Village

Road/Street/ Lane/Post Office

Area / Locality / Taluka/ Sub- Division

Town / City / District

State / Union Territory

Pincode

14 Declaration by the Applicant (RA) and Proof of Address (RA)I/We have enclosed as proof of identity and as proof of address.I , the applicant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Place

Date

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Signature / Left Thumb Impression of Applicant (inside the box)

Form No. 49AA

Application for Allotment of Permanent Account Number

Under section 139A of the Income Tax act, 1961

To avoid mistake (s), please follow the accompanying instructions and examples before filling up the form

Only individuals
to affix recent
photograph
(3.5 cm x 2.5 cm)Only individuals
to affix recent
photograph
(3.5 cm x 2.5 cm)Sign/Turn impression across
this photo

Signature Left Thumb impression

Assessing officer (AO code)

Area code	AO type	Range code	AO No.

Sir,

I/We hereby request that a permanent account number be allotted to me/us.

I/We give below necessary particulars:

1 Full Name (Full expanded name to be mentioned as appearing in proof of identity/address documents: initials are not permitted)

Please select title, ☒ as applicable ☐ Shri/Mr ☐ Smt/Mrs ☐ Kumari/Ms ☐ M/s

Last Name / Surname

First Name

Middle Name

2 Have you ever been known by any other name?

☐ Yes ☐ No

(please tick) as applicable)

If yes, please give that other name

Please select title, ☒ as applicable ☐ Shri/Mr ☐ Smt/Mrs ☐ Kumari/Ms ☐ M/s

Last Name / Surname

First Name

Middle Name

3 Sex (for individual applicants only)

☐ Male ☐ Female

(Please tick as applicable)

4 Date of Birth/Incorporation/Agreement/Partnership or Trust Deed/ Formation of Body of individuals or association of Persons

Day Month Year

5 Father's Name (Only 'individual' applicants: Even married women should give father's name only)

Last Name / Surname

First Name

Middle Name

6 Address

Residence Address

Flat/Room/ Door / Block No.

Name of Premises/ Building/ Village

Road/Street/ Lane/Post Office

Area / Locality / Taluka/ Sub- Division

Town / City / District

State / Union Territory

Pincode / Zip code

Country Name

Office Address

Name of office

Flat/Room/ Door / Block No.

Name of Premises/ Building/ Village

Road/Street/ Lane/Post Office

Area / Locality / Taluka/ Sub- Division

Town / City / District

State / Union Territory

Pincode / Zip code

Country Name

7 Address for Communication

☐ Residence☐ Office

(Please tick as applicable)

8 Telephone Number & Email ID details

Country code	STD Code	Telephone Number / Mobile number
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Email ID

9 Status of applicantPlease select status, ☒ as applicable

<input type="checkbox"/> Individual	<input type="checkbox"/> Hindu undivided family	<input type="checkbox"/> Company	<input type="checkbox"/> Partnership Firm	<input type="checkbox"/> Government
<input type="checkbox"/> Trusts	<input type="checkbox"/> Body of Individuals	<input type="checkbox"/> Local Authority	<input type="checkbox"/> Artificial Juridical Persons	<input type="checkbox"/> Association of Persons
				<input type="checkbox"/> Limited Liability Partnership

10 Registration Number (for company, firms, etc.)

11 Whether citizen of India?☐ Yes☐ No

(Please tick as applicable)

12 Source of IncomePlease select status, ☒ as applicable

<input type="checkbox"/> Salary	<input checked="" type="checkbox"/> as applicable	
<input type="checkbox"/> Income from Business / Profession	Business/Profession code <input type="text"/>	Refer table at point no. 12
<input type="checkbox"/> Income from House property		

<input type="checkbox"/> Capital Gains
<input type="checkbox"/> Income from Other sources
<input type="checkbox"/> No Income

13 Representative Assessee (RA)

Full name, address of the Representative Assessee, who is assessable under the Income Tax Act in respect of the person, whose particulars have been given in the column 1-12.

Full Name (Full expanded name: initials are not permitted)

Please select title, ☒ as applicable ☐ Shri/Mr ☐ Smt/Mrs ☐ Kumari/Ms ☐ M/s

Last Name / Surname

First Name

Middle Name

RA's Address

Flat/Room/ Door / Block No.

Name of Premises/ Building/ Village

Road/Street/ Lane/Post Office

Area / Locality / Taluka/ Sub- Division

Town / City / District

State / Union Territory

Pincode / Zip code

14 Documents submitted as Proof of Identity (POI) and Proof of Address (POA)

I/We have enclosed as proof of identity, as

proof of address, and as mandatory certified documents

(Please refer annexure for list of mandatory certified documents to be submitted as applicable)

15 KYC details**(a) In case of Individuals**Please select ☒ as applicableMarital Status ☐ Single ☐ Married ☐ Divorced ☐ Widow/Widower☐ Foreigner ☐ Person of Indian origin ☐ Overseas citizen of India**(b) In case of non individuals**Please select ☒ as applicable☐ Private Company ☐ Public Company ☐ Body Corporate☐ Financial Institution ☐ Non Government Organization ☐ Charitable Organization

(c) Gross Annual Income - INR
 Networth (Assets less liabilities) in INR

(d) In case of a Public Company, whether listed on stock exchange ☐ Yes ☐ No Please select ☒ as applicable
 If yes, then indicate name of the stock exchange

(e) Beneficial Owner ☐ Yes ☐ No Please select ☒ as applicable

(f) Is the entity involved / providing any of the following services
 Foreign exchange, Money Changer Services ☐ Yes ☐ No Please select ☒ as applicable
 Gaming/Gambling/Lottery services (Casinos and Betting Syndicates) ☐ Yes ☐ No
 Money Lending, Pawning ☐ Yes ☐ No

(g) Whether you or your authorised signatories/trustees/office bearers are:
 Politically exposed persons ☐ Yes ☐ No
 Related to politically exposed persons ☐ Yes ☐ No
 (For definition of politically exposed person refer to PMLA guidelines)

(h) Taxpayer Identification Number in the country of residence

I/We [redacted], the applicant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my/our information and belief.

I/We hereby authorize our representative given in Sl. No. 13 to obtain Permanent Account Number on my/ our behalf

Place

Date _____

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

Signature / Left Thumb Impression of
Applicant (inside the box)

[Notification No. 56/2011/F. No. 133/48/2011-SO (TPL)]

ASHIS MOHANTY, Under Secy.

Note : The principal rules were published vide Notification No. S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended by Income-tax (6th Amendment) Rules, 2011 vide Notification No. S.O. 1497(E), dated 1st July, 2011.